



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 5, 2008/वैशाख 15, 1930

No. 159]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 5, 2008/VAISAKHA 15, 1930

राष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई 2008

सं. 40-प्रेक्ष/2008.—भारत की राष्ट्रपति निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान करती हैं :—

पद्म विभूषण

1. डॉ. (श्रीमती) आशा भोसले, कला, महाराष्ट्र ।
2. सर एडमंड हिलरि (मरणोपरान्त), खेल-कूद, न्यूजीलैंड ।
3. श्री एन. आर. नारायण मूर्ति, व्यापार और उद्योग, कर्नाटक ।
4. श्री पी. आर. एस. ओबराय, व्यापार और उद्योग, दिल्ली ।
5. श्री प्रणब मुखर्जी, लोक-कार्य, दिल्ली ।
6. श्री सचिन रमेश तेंडुलकर, खेल-कूद, महाराष्ट्र ।

पद्म भूषण

1. श्री अमर नाथ सहगल (मरणोपरान्त), कला, दिल्ली ।
2. प्रो. आशीष दत्ता, विज्ञान और इंजीनियरी, दिल्ली ।
3. प्रो. ब्रजेन्द्र नाथ गोस्वामी, साहित्य और शिक्षा, चंडीगढ़ ।
4. श्री चन्द्रशेखर दासगुप्त, सिविल सेवा, दिल्ली ।
5. श्री देवेन्द्र राज मेहता, सामाजिक कार्य, राजस्थान ।
6. श्री डोमिनिक लेपेरे, सामाजिक कार्य, फ्रांस ।
7. प्रो. (डॉ.) जगजीत सिंह चोपड़ा, चिकित्सा, चंडीगढ़ ।
8. प्रो. जी जियाग्लिन, साहित्य और शिक्षा, चीन ।
9. श्री के. वामन कामथ, व्यापार और उद्योग, महाराष्ट्र ।
10. उस्ताद रहीम फ़हीमुद्दीन रज़ान डागर, कला, दिल्ली ।
11. डॉ. (श्रीमती) श्यामा चोना, साहित्य और शिक्षा, दिल्ली ।
12. श्री शिव नाडर, व्यापार और उद्योग, तमिलनाडु ।
13. श्री श्रीलाल शुक्ल, साहित्य और शिक्षा, उत्तर प्रदेश ।
14. प्रो. श्रीनिवास वरदन, साहित्य और शिक्षा, अमेरिका ।
15. प्रो. (डॉ.) सुख देव, विज्ञान और इंजीनियरी, दिल्ली ।
16. प्रो. (डॉ.) तरायेलेत्त कोशी ऊम्मन, साहित्य और शिक्षा, हरियाणा ।
17. डॉ. वसंत रणछोड गोवारीकर, विज्ञान और इंजीनियरी, महाराष्ट्र ।
18. डॉ. विक्रम शंकर पंडित, व्यापार और उद्योग, अमेरिका ।

पद्म श्री

1. डॉ. अमित मित्रा, व्यापार और उद्योग, दिल्ली ।
2. प्रो. (डॉ.) अरजुन राजशेकरन, चिकित्सा, तमिलनाडु ।
3. डॉ. बी. सिवंती आदित्यन, साहित्य और शिक्षा, तमिलनाडु ।
4. श्री भवरलाल हिरालाल जैन, विज्ञान और इंजीनियरी, महाराष्ट्र ।
5. प्रो. बीना अगरवाल, साहित्य और शिक्षा, दिल्ली ।
6. श्रीमती बुला चौधरी चक्रवर्ती, खेल-कूद, पश्चिम बंगाल ।
7. डॉ. दीपक सहगल, चिकित्सा, दिल्ली ।
8. प्रो. (डॉ.) दिनेश कुमार भार्गव, चिकित्सा, दिल्ली ।
9. श्री गंगाधर प्रधान, कला, उड़ीसा ।
10. डॉ. (श्रीमती) हेलेन गिरी, कला, मेघालय ।
11. श्री जतिन गोस्वामी, कला, असम ।
12. श्री जॉन मार्टिन नेलसन, कला, छत्तीसगढ़ ।
13. श्री जोन्लगाड्ड गुरप्पचेट्टि, कला, आन्ध्र प्रदेश ।
14. प्रो. जोसैफ हल्स, विज्ञान और इंजीनियरी, कनाडा ।
15. डॉ. कैलाश चन्द्र अग्रवाल, 'मानव', सामाजिक कार्य, राजस्थान ।
16. डॉ. कैकी आर. मेहता, चिकित्सा, महाराष्ट्र ।
17. प्रो. कोच्चाम्बिल्लि नारायणन नम्म्यार, कला, केरल ।
18. डॉ. (सुश्री) क्षमा मेत्रे, सामाजिक कार्य, हिमाचल प्रदेश ।
19. प्रो. डॉ. (श्रीमती) एम. लीलावति, साहित्य और शिक्षा, केरल ।
20. डॉ. (श्रीमती) मालविका सभरवाल, चिकित्सा, दिल्ली ।
21. श्री मंगला प्रसाद महंती, कला, झारखंड ।
22. श्रीमती मीनाक्षी सभानायकम् चित्तरंजन, कला, तमिलनाडु ।
23. डॉ. निरूपम बाजपेयी, साहित्य और शिक्षा, अमेरिका ।
24. पंडित प्रताप पवार, कला, यूनाइटेड किंगडम ।
25. श्री राजदीप सरदेसाई, पत्रकारिता, दिल्ली ।
26. डॉ. रमन कपूर, चिकित्सा, दिल्ली ।
27. डॉ. रणधीर सूद, चिकित्सा, दिल्ली ।
28. श्रीमती सेन्तीला टी. यांगर, कला, नागालैंड ।
29. प्रो. (डॉ.) श्याम नारायण आर्य, चिकित्सा, बिहार ।
30. डॉ. साइमन टोनी फरनॅन्डस, चिकित्सा, केरल ।

31. डॉ. श्रीनिवास उद्गाता, साहित्य और शिक्षा, उड़ीसा ।
32. प्रो. (डॉ.) सुरेन्द्र सिंह यादव, चिकित्सा, दिल्ली ।
33. डॉ. तात्याराव पुंडलीकराव लहाने, चिकित्सा, महाराष्ट्र ।
34. डॉ. वेल्लायणि अर्जुनन, साहित्य और शिक्षा, केरल ।
35. श्री विक्रमजीत सिंह साहनी, सामाजिक कार्य, दिल्ली ।
36. श्री विनोद दुआ, पत्रकारिता, दिल्ली ।
37. श्री यूसुफ अली एम. ऐ., सामाजिक कार्य, संयुक्त अरब अमीरात।

क्रिस्टी फर्नान्डेज़, राष्ट्रपति के सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2008

No. 40-Pres/2008.—The President of India is pleased to confer the following awards :—

Padma Vibhushan

1. Dr. (Smt.) Asha Bhosle, Art, Maharashtra.
2. Sir Edmund Hillary (Posthumous), Sports, New Zealand.
3. Shri N.R. Narayana Murthy, Trade and Industry, Karnataka.
4. Shri P.R.S. Oberoi, Trade and Industry, Delhi.
5. Shri Pranab Mukherjee, Public Affairs, Delhi.
6. Shri Sachin Ramesh Tendulkar, Sports, Maharashtra.

Padma Bhushan

1. Shri Amar Nath Sehgal (Posthumous), Art, Delhi.
2. Prof. Asis Datta, Science and Engineering, Delhi.
3. Prof. Brijinder Nath Goswamy, Literature and Education, Chandigarh.
4. Shri Chandrashekhar Dasgupta, Civil Service, Delhi.
5. Shri Devendra Raj Mehta, Social Work, Rajasthan.
6. Mr. Dominique Lapierre, Social Work, France.
7. Prof. (Dr.) Jagjit Singh Chopra, Medicine, Chandigarh.
8. Prof. Ji Xianlin, Literature and Education, China.
9. Shri K. Vaman Kamath, Trade and Industry, Maharashtra.
10. Ustad Rahim Fahimuddin Khan Dagar, Art, Delhi.
11. Dr. (Smt.) Shayama Chona, Literature and Education, Delhi.
12. Shri Shiv Nadar, Trade and Industry, Tamil Nadu.
13. Shri Shrilal Shukla, Literature and Education, Uttar Pradesh.
14. Prof. Srinivasa Varadhan, Literature and Education, USA.
15. Prof. (Dr.) Sukh Dev, Science and Engineering, Delhi.
16. Prof. (Dr.) Tharailath Koshy Oommen, Literature and Education, Haryana.
17. Dr. Vasant Ranchhod Gowariker, Science and Engineering, Maharashtra.
18. Dr. Vikram Shankar Pandit, Trade and Industry, USA.

Padma Shri

1. Dr. Amit Mitra, Trade and Industry, Delhi.
2. Prof. (Dr.) Arjunan Rajasekaran, Medicine, Tamil Nadu.
3. Dr. B. Sivanthi Adityan, Literature and Education, Tamil Nadu.
4. Shri Bhavarlal Hiralal Jain, Science and Engineering, Maharashtra.
5. Prof. Bina Agarwal, Literature and Education, Delhi.
6. Smt. Bula Chowdhury Chakraborty, Sports, West Bengal.
7. Dr. Deepak Sehgal, Medicine, Delhi.
8. Prof. (Dr.) Dinesh Kumar Bhargava, Medicine, Delhi.
9. Shri Gangadhar Pradhan, Art, Orissa.
10. Dr. (Smt.) Helen Giri, Art, Meghalaya.
11. Shri Jatin Goswami, Art, Assam.
12. Shri John Martin Nelson, Art, Chhattisgarh.
13. Shri Jonnalagadda Gurappa Chetty, Art, Andhra Pradesh.
14. Prof. Joseph H. Hulse, Science and Engineering, Canada.
15. Dr. Kailash Chandra Agrawal 'Manav', Social Work, Rajasthan.
16. Dr. Keiki R. Mehta, Medicine, Maharashtra.
17. Prof. Kochampilli Narayanan Nambiar, Art, Kerala.
18. Dr. (Ms.) Kshama Metre, Social Work, Himachal Pradesh.
19. Prof. Dr. (Smt.) M. Leelavathy, Literature and Education, Kerala.
20. Dr. (Smt.) Malvika Sabharwal, Medicine, Delhi.
21. Shri Mangala Prasad Mohanty, Art, Jharkhand.
22. Smt. Meenakshi Sabanayagam Chitharanjan, Art, Tamil Nadu.
23. Dr. Nirupam Bhajpai, Literature and Education, USA.
24. Pandit Pratap Pawar, Art, United Kingdom.
25. Shri Rajdeep Sardesai, Journalism, Delhi.
26. Dr. Raman Kapur, Medicine, Delhi.
27. Dr. Randhir Sud, Medicine, Delhi.
28. Smt. Sentila T. Yanger, Art, Nagaland.
29. Prof. (Dr.) Shyam Narayan Arya, Medicine, Bihar.
30. Dr. Simon Tony Fernandez, Medicine, Kerala.
31. Dr. Srinivas Udgate, Literature and Education, Orissa.
32. Prof. (Dr.) Surendra Singh Yadav, Medicine, Delhi.
33. Dr. Tatyrao Pundlikrao Lahane, Medicine, Maharashtra.
34. Dr. Vellayani Arjunan, Literature and Education, Kerala.
35. Shri Vikramjit Singh Sahney, Social Work, Delhi.
36. Shri Vinod Dua, Journalism, Delhi.
37. Shri Yusuff Ali, M.A., Social Work, UAE.

CHRISTY FERNANDEZ, Secy. to the President